



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 18

11 वैशाख 1941 (श०)
पटना, बुधवार, ———
1 मई 2019 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-10	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-9-विज्ञापन	---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	11-11
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	पूरक	---
		पूरक-क	---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

19 अप्रैल 2019

सं० ई2-2-09/2016-3514—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना-सह-पठित ज्ञापांक-18/लो०शि०नि०-14-04/2016- 7691 दिनांक 30.05.2016 के आलोक में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोजनार्थ निर्वाचन विभाग, पटना में श्री सोहन कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-30 दिनांक 31.08.2016-सह-पठित ज्ञापांक-3361 दिनांक 31.08.2016 द्वारा प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित थे। इनकी सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप अब उक्त प्रयोजनार्थ श्री प्रवीण कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा, संयुक्त सचिव।

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

29 मार्च 2019

सं० वि०स०(या०)-956/18-625/वि०स०।—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-4865, दिनांक 02.04.2018 द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए गठित एवं अधिसूचना संख्या-4974, दिनांक 23.05.2018 तथा अधिसूचना संख्या-334, दिनांक 28.03.2019 द्वारा यथा संशोधित याचिका समिति का कार्यकाल वर्ष 2019-2020 के लिए निम्न प्रकार विस्तारित किया जाता है :-

1. श्री फैयाज अहमद	स०वि०स०	सभापति
2. डॉ० रामानन्द यादव	स०वि०स०	सदस्य
3. श्री रामानन्द प्रसाद सिंह	स०वि०स०	सदस्य
4. श्रीमती गुलजार देवी	स०वि०स०	सदस्या
5. श्री सत्यदेव सिंह	स०वि०स०	सदस्य
6. श्री फैसल रहमान	स०वि०स०	सदस्य
7. श्री अनिल कुमार यादव	स०वि०स०	सदस्य
8. श्री नन्द कुमार राय	स०वि०स०	सदस्य
9. श्रीमती भावना झा	स०वि०स०	सदस्या
10. श्री विद्या सागर सिंह निषाद	स०वि०स०	सदस्य
11. श्री मनोज कुमार	स०वि०स०	सदस्य
12. श्री संजीव चौरसिया	स०वि०स०	सदस्य
13. सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान	स०वि०स०	सदस्या
14. श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी	स०वि०स०	सदस्य
15. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन	स०वि०स०	सदस्य
16. श्री चन्द्रशेखर	स०वि०स०	सदस्य

श्री फैयाज अहमद, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

समिति का कार्यकाल 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक होगा।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिव।

28 मार्च 2019

सं० अ०क०स०-01/2019-342/वि०स०।--सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-1929, दिनांक 02.04.2018 एवं अधिसूचना संख्या-9261, दिनांक 30.08.2018 द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए गठित अल्पसंख्यक कल्याण समिति का कार्यकाल वर्तमान स्वरूप में ही वर्ष 2019-2020 के लिए निम्न प्रकार विस्तारित किया जाता है :-

1.	श्री शरफुद्दीन	स०वि०स०	सभापति
2.	डा० मुहम्मद जावेद	स०वि०स०	सदस्य
3.	श्री अब्दुल जलील मस्तान	स०वि०स०	सदस्य
4.	डा० अब्दुल गफूर	स०वि०स०	सदस्य
5.	मो० नेमतुल्लाह	स०वि०स०	सदस्य
6.	श्री नौशाद आलम	स०वि०स०	सदस्य
7.	श्री मुजाहिद आलम	स०वि०स०	सदस्य
8.	श्री फराज फातमी	स०वि०स०	सदस्य
9.	मो० नवाज आलम	स०वि०स०	सदस्य
10.	श्री शाहनवाज	स०वि०स०	सदस्य

श्री शरफुद्दीन, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

समिति का कार्यकाल 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिव ।

28 मार्च 2019

सं० बि०वि०वि०स०-02/2015-758/वि०स०।--सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-2883, दिनांक 02.04.2018 द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए गठित बिहार विरासत विकास समिति का कार्यकाल वर्ष 2019-20 के लिए दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक निम्न प्रकार विस्तारित किया जाता है :-

1.	श्री विनोद प्रसाद यादव	स०वि०स०	सभापति
2.	श्री अशोक कुमार सिंह (क्षेत्र सं०-224)	स०वि०स०	सदस्य
3.	श्री कुमार सर्वजीत	स०वि०स०	सदस्य
4.	श्री विनय बिहारी	स०वि०स०	सदस्य
5.	डॉ० राजेश कुमार	स०वि०स०	सदस्य
6.	श्री राज किशोर सिंह	स०वि०स०	सदस्य
7.	श्रीमती वर्षा रानी	स०वि०स०	सदस्य
8.	श्री आनन्द शंकर सिंह	स०वि०स०	सदस्य
9.	श्री अभय कुमार सिन्हा	स०वि०स०	सदस्य

श्री विनोद प्रसाद यादव, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिव ।

28 मार्च 2019

सं० आवास-01/19-775/वि०स०।--सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि वर्ष 2018-2019 के लिए गठित आवास समिति का कार्यकाल माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने वर्ष 2019-20 के लिए वर्तमान स्वरूप में ही दिनांक 31.03.2020 तक विस्तारित किया है, जो निम्न प्रकार से है :-

1.	श्री व्यासदेव प्रसाद	स०वि०स०	सभापति
2.	श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी	स०वि०स०	सदस्य
3.	श्री तेज प्रताप यादव	स०वि०स०	सदस्य
4.	श्री विजय प्रकाश	स०वि०स०	सदस्य

5.	श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव	संविंस०	सदस्य
6.	श्री सुबोध राय	संविंस०	सदस्य
7.	श्रीमती कुमारी मन्जु वर्मा	संविंस०	सदस्य

श्री व्यासदेव प्रसाद, संविंस० इस समिति के सभापति तथा बिहार विधान सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक के लिए होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिव ।

28 मार्च 2019

सं० शूंकाल-07/19-777/विंस०।--सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि वर्ष 2018-2019 के लिए गठित शून्यकाल समिति का कार्यकाल माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने वर्ष 2019-20 के लिए वर्तमान स्वरूप में ही दिनांक 31.03.2020 तक विस्तारित किया है, जो निम्न प्रकार से है :-

1.	श्री रामप्रीत पासवान	संविंस०	सभापति
2.	श्री ददन यादव	संविंस०	सदस्य
3.	श्री राजेंद्र कुमार	संविंस०	सदस्य
4.	श्रीमती मंगिता देवी	संविंस०	सदस्य
5.	श्री हरिशंकर यादव	संविंस०	सदस्य
6.	श्री जय वर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव	संविंस०	सदस्य
7.	श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा	संविंस०	सदस्य
8.	श्री केदार प्रसाद गुप्ता	संविंस०	सदस्य
9.	श्री विद्यासागर केशरी	संविंस०	सदस्य
10.	श्री राज कुमार साह	संविंस०	सदस्य

श्री रामप्रीत पासवान, संविंस०, इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
बटेश्वर नाथ पाण्डेय, सचिव ।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

4 जनवरी 2019

सं० 08/नि.को.(रा.)परि.-238/2012-59—श्री नागेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दी मोतिहारी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, मोतिहारी सम्प्रति सेवा निवृत्त उप निबंधक (न्या.), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के विरुद्ध उक्त पदस्थापन काल में बैंक की जमा राशि में ह्रास, जमा वृद्धि हेतु कोई प्रसास नहीं करना/ऋण वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं करना/अधिकांशतः पटना में रहना, सूर्या होटल में ठहरना/बैंक जिप्सी की जगह भाड़े पर वाहन लेकर भ्रमण करना/बैंक के मोबाईल पर अत्यधिक कॉल/मकान बनाने हेतु बैंक से 5 लाख ऋण सूद दर कम करके प्राप्त करना/Bye laws के प्रावधान के प्रतिकूल defaults कई बैंक के director बने हुए हैं/विकास पदाधिकारी को लाभ पहुँचाने के लिए मो.-2,77,800/- रु. का चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान करने से संबंधी परिवाद के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के मंतव्य के समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या-3319 दिनांक 16.09.2016 द्वारा श्री नागेन्द्र प्रसाद को संचयी प्रभाव के बिना तीन वेतन वृद्धियाँ रोकने का दण्ड संसूचित की गई थी, परन्तु इनके वार्द्धक्य सेवा निवृत्ति दिनांक 31.07.2018 थी। जिस कारण अगली वेतन वृद्धि के पूर्व ही सेवा निवृत्त हो गये।

अतः उक्त लघु शास्ति के तहत संचयी प्रभाव के बिना तीन वेतन वृद्धि पर रोक को संशोधित कर दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड संसूचित किया जाता है।

2. अधिसूचना संख्या-3319 दिनांक 16.09.2016 के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

3. इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम, उप सचिव (निगरानी)।

1 फरवरी 2019

सं0 1/सह.रा.स्था.बि.स.से.(अंके.)स्थाना-16/2012/596—बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के पदाधिकारी श्री कामेश्वर ठाकुर, उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ, कोशी एवं दरभंगा प्रमंडल, सहरसा (अति.प्रभार-संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा/संयुक्त निबंधक, (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सहरसा) को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना एवं उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ, सहकारी गृह निर्माण एवं उपभोक्ता संघ, पटना का अतिरिक्त प्रभार तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप सचिव।

22 फरवरी 2019

सं0 1/सह.राज.स्था.(स्थानान्तरण)-04/2015/906—श्री विकास कुमार बरियार, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भागलपुर, श्री संजय कुमार, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 नेशनल, बेतिया एवं श्री सैय्यद सरवर हुसैन, जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, अररिया के अवकाश से लौटने के उपरान्त उनके द्वारा मुख्यालय में दिये गये योगदान को सशर्त स्वीकार करते हुए कार्यहित में तत्काल प्रभाव से निम्न कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है:-

(i) श्री विकास कुमार बरियार, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भागलपुर को सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के प्रभारी के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

(ii) श्री संजय कुमार, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 नेशनल, बेतिया को राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई0सी0डी0पी0, बिहार, पटना के कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

(iii) श्री सैय्यद सरवर हुसैन, जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, अररिया को सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (बुनकर), बिहार, पटना के कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. उक्त पदाधिकारियों का जब तक मेडिकल बोर्ड से जाँच होकर उनके अभ्यावेदन/दावा की संपुष्टि नहीं हो जाती है तब तक उन्हें अनुपस्थित अवधि का कोई भुगतान देय नहीं होगा और यह आदेश उनके निर्दोष होने अथवा उनके दावा के समर्थन में नहीं माना जायेगा। मेडिकल बोर्ड से जाँचोपरान्त उनके दावा की पुष्टि होने के उपरान्त नियमानुसार अनुपस्थित अवधि का अवकाश स्वीकृत होने के बाद ही भुगतान देय होगा। मेडिकल बोर्ड से स्पष्ट पुष्टि नहीं होने या किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में विभागीय निर्णय अंतिम रूप से उन्हें स्वीकार होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप सचिव।

25 फरवरी 2019

सं0 1/सह.राज.स्था.(स्थानान्तरण)-56/2013/943—श्री मनोज कुमार शर्मा, जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, लखीसराय (अतिरिक्त प्रभार-जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जमुई) को प्रशासनिक दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव से निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है। श्री शर्मा के वेतनादि का भुगतान उनके मूल पदस्थापन स्थान/कार्यालय से होगा।

2. श्री यतीन्द्र किशोर कुशवाहा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा (अतिरिक्त प्रभार-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, शेखपुरा) को अपने कार्यों के अतिरिक्त तत्काल प्रभाव से जिला सहकारिता पदाधिकारी, लखीसराय का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

3. श्री संजीव कुमार सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा (अतिरिक्त प्रभार-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, नवादा) को तत्काल प्रभाव से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जमुई का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप सचिव।

6 मार्च 2019

सं0 1/सह.राज.स्था.(स्थानान्तरण)-56/2013/1045—श्री मनोज कुमार शर्मा, जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, लखीसराय की कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश की कंडिका-1 एवं 2 को विलोपित करते हुए उन्हें अपने मूल पदस्थापन पद जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, लखीसराय पर बने रहने का आदेश दिया जाता है। पूर्व में निर्गत एतद् संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या-943 दिनांक 25.02.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप सचिव।

8 मार्च 2019

सं० 1/रा.स्था.निजी-06/19 सह.-1117—श्री शशि शेखर सिन्हा, विशेष पदाधिकारी (उपभोक्ता) सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को स्वयं के स्वास्थ्य कारणों हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में वर्णित प्रावधानानुसार दिनांक 25.10.18 से 22.11.18 तक (दिनांक 23.11.18 एवं 24.11.18 को राजपत्रित अवकाश सहित) कुल 29 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5632 दिनांक 26.06.15 के आलोक में छुट्टी वेतन के अन्तर्गत सिर्फ मूल वेतन, ग्रेड वेतन, महंगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता ही भुगतान किया जायेगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप सचिव।

13 मार्च 2019

सं० 01/रा.स्था.निजी-06/19 सह.-1152—श्री भरत कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को स्वयं की चिकित्सा हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 232 एवं 234 में वर्णित प्रावधानानुसार दिनांक 06.12.2017 से 22.05.2018 तक कुल 168 (एक सौ अड़सठ) दिनों के रुपांतरित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवधि में छुट्टी वेतन के अंतर्गत सिर्फ मूल वेतन, ग्रेड वेतन, महंगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता ही भुगतान किया जायेगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप सचिव।

15 मार्च 2019

सं० 1/रा.स्था.(2)सह.से.(व्य.)-06/2004सह.-1184—श्री बिरेन्द्र ठाकुर, संयुक्त निबंधक, पटना प्रमंडल, पटना को पुत्र के शादी के निमित्त बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में वर्णित प्रावधानानुसार दिनांक 14.01.19 से 23.01.19 तक कुल 10 (दस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5632 दिनांक 26.06.15 के आलोक में छुट्टी वेतन के अन्तर्गत सिर्फ मूल वेतन, ग्रेड वेतन, महंगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता ही भुगतान किया जायेगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
विनय कुमार, अवर सचिव।

25 मार्च 2019

सं० 8/नि.को.(रा.)विभागीय-704/2016-1263—श्री अजय कुमार भारती, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक-737 दिनांक 27.07.2016 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2015-16 अन्तर्गत धान/चावल की अधिप्राप्ति के कार्यक्रम हेतु कार्य योजना एवं मार्गनिर्देश से संबंधित मुख्य सचिव, बिहार, पटना एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संसूचित निदेश की अवहेलना की किये जाने, दायित्वों के निर्वहन नहीं करने एवं धान अधिप्राप्ति के समतुल्य सी.एम.आर. के प्राप्ति में विफल रहने के लिए आरोप पत्र (प्रपत्र-“क”) गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया था। जिस पर श्री भारती से स्पष्टीकरण पूछकर जिला पदाधिकारी, मधुबनी निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त किया गया।

आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि अधिप्राप्ति काल में भले ही आरोपित पदाधिकारी द्वारा उतनी तत्परता/अनुश्रवण नहीं दिखाया गया हो, परन्तु अन्त में उनके द्वारा सभी कार्रवाई किया गया है। श्री भारती द्वारा प्रारम्भ से ही तत्परतापूर्वक कार्य करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

अतः श्री अजय कुमार भारती, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर को भविष्य के लिए चेतावनी दी जाती है।

इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम, उप सचिव (निगरानी)।

25 मार्च 2019

सं० 8/नि.को.(रा.)विविध-806/2017-1264—बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत श्री सुबोध राय, ग्राम सितुहरी, पोस्ट-नारायणपुर, प्रखंड-अगियांवा, जिला-भोजपुर के परिवाद पत्र पर विभागीय प्रधान सचिव-सह-द्वितीय अपील प्राधिकार द्वारा आदेश पारित किया गया था कि वर्ष 2014-15 में धान अधिप्राप्ति कार्य समाप्त होने के लगभग एक वर्ष बाद किसानों को धान के बोरे के भुगतान हेतु जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को प्रथम पत्र भेजा

गया है, जो यह प्रदर्शित करता है कि जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा किसानों के धान के बोरे का समय पर मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने हेतु संवेदनशीलता नहीं बरती गई है इसके लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर से स्पष्टीकरण पूछा जाय। तदालोक में विभागीय पत्रांक 889, दिनांक 09.03.17 द्वारा श्री मनोज कुमार सिंह, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर सम्प्रति उप-महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना से स्पष्टीकरण पूछकर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से मंतव्य प्राप्त की गई।

श्री सिंह के स्पष्टीकरण एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की सम्यक् समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि अधिप्राप्ति वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि में भोजपुर जिले के किसी भी समिति को बोरे की राशि का भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्ष 2014-15 में परिवादी के समिति को बोरे की राशि का बैंक से भुगतान नहीं होने में कोई भेदभाव परिलक्षित नहीं होता है। साथ ही निर्वाचन कार्य एवं उनके दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उत्पन्न परिस्थिति के कारण संवादहीनता की स्थिति नहीं कही जा सकती है, परन्तु जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर को वस्तु-स्थिति से विभाग को तुरंत अवगत कराया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अतएव उक्त लापरवाही के लिए श्री मनोज कुमार सिंह, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर सम्प्रति उप-महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना को भविष्य के लिए चेतावनी की सजा दी जाती है।

इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम, उप सचिव (निगरानी)।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

25 अप्रैल 2019

सं० 15/ए 6-02/2008 (अंश)-952—श्री दिनेश चन्द्र झा, प्रभारी अध्यक्ष-सह-निदेशक, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना एवं कार्यकारी अध्यक्ष-सह-निदेशक, मैथिली अकादमी, पटना तथा संस्कृत अकादमी, पटना, को अपने कार्यों के अतिरिक्त मगही अकादमी, पटना एवं बांग्ला अकादमी, पटना का कार्यकारी अध्यक्ष-सह-निदेशक के रूप में अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है।

उक्त पद पर नियमित नियुक्ति अथवा अन्य कोई आदेश निर्गत होने के पश्चात् यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज, उप सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचनाएं

26 अप्रैल 2019

सं० 02/शमन-07(A)/2015, परि०-2906—मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत यातायात पुलिस के निम्नलिखित पदाधिकारियों को दिनांक 23.04.2019 से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।

क्र० सं०	पदाधिकारियों का नाम	कार्य क्षेत्र
1.	सभी परिचारी यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र
2.	परिचारी प्रवर यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र
3.	पुलिस निरीक्षक, यातायात	पटना नगर क्षेत्र
4.	सभी पुलिस अवर निरीक्षक, यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र

2. यह अधिसूचना दिनांक-23.04.2019 की तिथि से प्रभावी होगा।

3. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारियों द्वारा वसूली की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी। मामले के समीक्षोपरान्त ही अगले छः माह के बाद अवधि विस्तार पर विचार किया जाएगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सचिव।

26 अप्रैल 2019

सं० 02/शमन-03/2016, परि०-2907—अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु जिलों में पदस्थापित थानाध्यक्ष तथा उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अपराधों के लिए शमन की शक्ति, गृह विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-2932, दिनांक-10.04.2017 द्वारा निर्गत बैठक की कार्यवाही एवं उनमें दिये गये शर्तों के साथ किये गये अनुशंसा एवं पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना के पत्रांक-1552/418592, एक्स० एल० दिनांक-29.03.2019 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित ओ०पी० प्रभारी, थानाध्यक्ष एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र के भीतर दिनांक 27.04.2019 की तिथि से अगले 12 (बारह) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के संगत प्रावधान के अन्तर्गत धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 एवं 190 के तहत निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों को विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराध के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की शक्ति उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।

क्र०सं०	पदनाम	कार्य क्षेत्र
1.	अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)	सम्पूर्ण जिला क्षेत्र
2.	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	संबंधित अनुमंडल क्षेत्र
3.	प्रभाग पुलिस निरीक्षक	प्रभाग के अन्तर्गत आने वाले सभी थाना क्षेत्र
4.	थानाध्यक्ष	सम्पूर्ण थाना क्षेत्र
5.	ओ०पी० प्रभारी	सम्पूर्ण ओ०पी० क्षेत्र

2. मनी रसीद/सीजर बुक आदि विभागीय प्रपत्रों की अधियाचना एवं वापसी के संबंध में विभागीय पत्रांक-546, दिनांक 01.02.2016 प्रभावी होगा।

3. सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि शमन की शक्ति के तहत जुर्माना किए जाने संबंधी मनी रसीद/सीजर बुक संबंधित जिले के जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए एवं शमन से प्राप्त राशि को ब्योरावार संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए।

4. आपूर्ति किये गए मनी रसीद/सीजर बुक को उपयोग में लाने से पूर्व अथवा अन्य पदाधिकारियों को आवंटित करने से पूर्व छपाई संबंधी त्रुटियों की जांच कर लेना सुनिश्चित किया जाए। रसीदों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें सम्बन्धित जिला परिवहन कार्यालय जहां से उक्त मनी रसीद/सीजर प्राप्त किया गया था, को वापस किया जाए।

5. व्यवहृत/अव्यवहृत रसीदों को सुरक्षित रखना, इनका अंकेक्षण यथाशीघ्र कराना एवं व्यवहृत रसीदों की प्रविष्टि जिला परिवहन कार्यालय में संबंधित पंजी में प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. संधारित पंजी का सत्यापन जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाए।

7. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार अपने नियंत्राधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रतिमाह परिवहन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. शक्ति प्रदत्त पुलिस पदाधिकारियों द्वारा शमन हेतु जो रसीद काटी जाए उसमें वाहन मालिक का नाम/चालक का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या/वाहन का निबंधन संख्या एवं किस धारा में शमन किया गया है उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय।

9. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार अपने नियंत्रणधीन शमन प्राप्त पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा करते हुए मुख्यालय को प्रतिवेदित भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि मामलों की समीक्षोपरांत अगले अवधि विस्तार पर निर्णय लिया जा सके।

10. सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार से अनुरोध है कि गृह विभाग के ज्ञापांक-2932, दिनांक 10.04.2017 द्वारा निर्गत बैठक की कार्यवाही में अंकित शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सचिव।

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

10 अप्रैल 2019

सं० 16/ए०३-03/2015/535 (आ०चि०)—राज्य में स्वास्थ्य विभागान्तर्गत आयुष के शैक्षणिक संस्थानों में सृजित एवं रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार नियुक्त चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षकों की संविदा अवधि विभागीय आदेश से विस्तारित की जाती रही है। संविदा पर कार्यरत चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षक की संविदा अवधि भिन्न-भिन्न तिथियों को पूरी होती है। प्रत्येक वर्ष संविदा अवधि विस्तार करने में कठिनाईयाँ होती हैं एवं संविदा के आधार पर कार्यरत चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षकों के बीच असंतोष की भावना पैदा होती है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 12534 दिनांक 17.09.2018 के आलोक में उच्चस्तरीय समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं को आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग के अधीन संविदा के आधार पर नियोजित चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षक पर निम्नवत् संसूचित किया जाता है:—

1. आयुष निदेशालय के अधीन सृजित एवं रिक्त पदों पर नियोजित चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षक की नियोजन अवधि के संबंध में—

(क) विभागान्तर्गत संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षक का नियोजन पूरी तरह अस्थायी है तथा उच्चस्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में नियमित नियुक्ति अथवा सेवानिवृत्ति की आयु, जो भी पहले हो, तक के लिए है। फलतः संविदा के आधार पर नियोजित चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षकों का प्रत्येक वर्ष संविदा अवधि विस्तार किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर अथवा सेवा असंतोषजनक होने के कारण नियमित नियुक्ति अथवा सेवानिवृत्ति की आयु जो पहले लागू हो, के पूर्व भी नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्त की जा सकती है।

(ग) संविदा नियोजन की अन्य शर्तें नियोजन के समय निर्गत नियोजन पत्र/एकरारनामा में अंकित यथावत रहेंगी।

2. आयुष निदेशालय के अन्तर्गत संविदागत नियोजित चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षकों के अवकाश के संबंध में—

(क) आकस्मिक अवकाश—सप्ताहमें 5 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 12 दिन एवं सप्ताह में 6 कार्य दिवस होने की स्थिति में एक वर्ष में 16 दिन।

(ख) अर्जित अवकाश— एक वर्ष में 16 दिन (सेवा के दूसरे वर्ष से लागू) एवं 60 दिन अधिकतम संचित किया जा सकता है।

(ग) मातृत्व अवकाश—प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 “The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017” के आलोक में कंडिका (त) में मातृत्व अवकाश के संबंध में अनुशंसा की गयी है।

(घ) पितृत्व अवकाश— 15 दिन (दो बच्चों तक)

(च) अवैतनिक अवकाश— 30 दिन।

3. अवकाश के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण निर्देश—

(क) उपर्युक्त अवकाश स्वीकृति नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

(ख) अवकाश उपभोग की सूचना पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति के कार्यालय तथा मानदेय भुगतान के कार्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) अवकाश किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है, अतः अवकाश पर जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। अनाधिकृत रूप से अवकाश पर जाने पर संबंधित पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। जो कर्मी बिना किसी सूचना के 15 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित पाये जाते हैं, उनके पद को रिक्त घोषित किया जायेगा एवं संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जायेगी।

4. उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के आलोक में उपर्युक्त निर्णय केवल उन्हीं चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षकों के संबंध में लागू होगी जिन नियोजित कर्मियों के संबंध में पद स्वीकृत हो, नियोजित कर्मी पद की अर्हता रखता हो, पद विज्ञापित किया गया हो, नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन किया गया हो एवं चयन प्रक्रिया अपनायी गयी हो, नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी हो एवं सरकार द्वारा स्थापित आरक्षण के सिद्धांत का अनुपालन किया गया हो अर्थात् नियोजन की प्रक्रिया/नियोजन वैध हो।

उक्त प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य की सहमति प्राप्त है।

आदेश से,
रवीन्द्र यादव, अवर सचिव।

**गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)**

अधिसूचनाएं
25 अप्रैल 2019

सं० 1/एल1-10-07/2019-गृ०आ०-3402—श्री आलोक राज, भा०पु०से० (1989), पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण), बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर) को अपने भाई के पुत्र की Graduation Ceremony में शामिल होने एवं पर्यटन हेतु अपने भाईयों द्वारा प्रयोजित विदेश (संयुक्त राज्य अमेरिका) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है। इस यात्रा हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 03.06.2019 से 21.06.2019 तक कुल 19 (उन्नीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दिनांक 01/02.06.2019 (शनिवार एवं रविवार) को Prefix एवं 22/23.06.2019 (शनिवार एवं रविवार) को Suffix के साथ प्रदान की जाती है।

2. उक्त स्वीकृत उपार्जित अवकाश की अवधि में श्री आलोक राज के द्वारा धारित पदों का अतिरिक्त प्रभार श्री एस० के० सिंघल, पुलिस महानिदेशक, बिहार सैन्य पुलिस, पटना को दिया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव।

15 अप्रैल 2019

सं० 1/एल1-10-20/2009-गु०आ०-3205—श्री दिनेश सिंह बिष्ट, भा०पु०से० (1987), महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-11402 दिनांक 11.12.2018 द्वारा पूर्व में स्वीकृत उपार्जित अवकाश की अवधि में संशोधन कर अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 21.04.2019 से 11.05.2019 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त स्वीकृत उपार्जित अवकाश की अवधि में श्री बिष्ट को आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, कनाडा एवं अन्य पारगमन देशों की निजी खर्च पर निजी विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 6-571+25-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 499--I, Namrata Jha D/o Pankaj Kumar Jha, R/o B-101, Pushpanjali Kunj, Ashiyana Digha Road PS-Shastrinagar, PO-Rajeev Nagar, Patna, Bihar declare Vide Affd. No. 21 dated 15.3.2019 that Kumari Namrata and Namrata Jha is name of same and single person. Now I will be known as Namrata Jha for all future purpose.

Namrata Jha.

सं० 500—मैं सूर्यदेव नारायण पिता स्व० हरीनंदन सिंह निवासी ग्राम—बिलाप, पो० कुँजवाँ पटना। शपथ पत्र संख्या 1424 दिनांक 09.02.2019 के अनुसार मैं अब सूर्यदेव सिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा।

सूर्यदेव नारायण।

No. 501--I, Navneet Kumar S/o Sanjay Kumar, Mohalla-Saketpuri Colony Road No. 2 Katari Hill Road P.S.-Rampur, PO-Gaya, Distt.-Gaya (Bihar) PIN-823001 declare the according to affidavit no. 3401 dated 26.02.2019 that My Name has been changed as Navneet Shandilya S/O Sanjay Kumar.

Navneet Kumar.

No. 504--I Uday Raj , S/o Yugeshwar Rajak, R/o Navin Nagar, Saida Bazar, Hilsa, Nalanda is declare that previously my name was Uday Baitha which canged into Uday Raj vide aff. No. 3689 dated 20.02.2019.

Uday Raj.

No. 505--I, Yasmin Yunus W/O Md. Yusuf Yunus R/O Yunus Compound, S. P. Verma Road, P.O.-GPO, P.S.-Kotwali, Patna-1 declare vide Affidavit no. 09 dated 02-01-2019 that now, I shall be known as Yasmin Bano.

Yasmin Yunus.

No. 506--I, Ankita D/o Pankaj Kumar Singh R/O- 104, Dayal Enclave, Patthar Road, Saristabad P.S.-Gardanibagh, P.O- Patna G.P.O, Dist.-Patna shall be known as Ankita Singh vide Affidavit No- 6781, Dated- 01.04.2019.

Ankita.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 6-571+25-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>